



दिनांक-26.11.2022

थाना बरौर पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित 02 नफ़र अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी डेरापुर के कुशल नेतृत्व में थाना बरौर पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित दो नफर अभियुक्तगणों 1.शाबान अहमद पुत्र स्व0 ईदुल हसन 2.मोहम्मद शाकिब पुत्र स्व0 अबरार हुसैन निवासीगण ग्राम केशी थाना बरौर कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 11.05.2022 को वादिनी के पति को जहर देकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में अपने ही गांव के 04 नामजद के विरुद्ध आरोप लगाते हुये तहरीर दी थी जिसके आधार पर थाना बरौर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम के अथक प्रयासोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुये आज दिनांक 25.11.2022 को 02 नामजद अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह बहुत अधिक नशे में दिख रहा था फिर हम लोगो से ताजमीर ने खाना खाने को कहा हम लोग ताजमीर के घर खाना खाने के लिये बैठ गये तीन थालियो में अलग-अलग खाना आया ताजमीर की पत्नी अन्दर रोटी बना रही थी ताजमीर लोटा में पानी लेकर हाथ धोने चला गया, तो हम दोनों ने सही मौका देखकर जहर की पुडिया निकाल कर ताजमीर के खाने में मिला दिया और फिर हम तीनों ने अपनी-अपनी थालियो से खाना खाया इसके बाद वहाँ से हम लोग निकल आये और रात में ही हम दोनो मौका देखकर गाँव से भाग गये थे उसके बाद पता चला कि ताजमीर की मृत्यु हो गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

- 1.शाबान अहमद पुत्र स्व0 ईदुल हसन उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम केशी थाना बरौर कानपुर देहात।
- 2.मोहम्मद शाकिब पुत्र स्व0 अबरार हुसैन उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम केशी थाना बरौर कानपुर देहात।

अभियुक्त शाबान अहमद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0स0 60/2002 धारा 302/307/120बी भादवि0 थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।
- 2-मु0अ0स0 26/2022 धारा 302/328/120 भादवि0 थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त मोहम्मद शाकिब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 26/2022 धारा 302/328/120 भादवि0 थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.श्री शिवंशंकर थानाध्यक्ष बरौर जनपद कानपुर देहात।
- 2.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह तोमर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।
- 3.का0 600 अभिषेक दीक्षित थाना बरौर जनपद कानपुर देहात
- 4.का0 859 सरवरे आलम थाना बरौर जनपद कानपुर देहात

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात**